

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त 2017—श्रावण 10, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2017

क्र. बी-8-12/2017/14-2., भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2017 में पटवारी हल्कावार फसलों की सूची असाधारण राजपत्र में जारी की गई थी। जिला रतलाम के पटवारी हल्कों के समक्ष अंकित फसल को सम्मिलित किया जाता है। संलग्न संशोधित सूची अनुसार जिला के समक्ष दर्शाई गई फसल के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम.	खरीफ		वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसल को जोड़ा जाता है।										
रतलाम	रतलाम									
		विलपांक	60	तुनेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			62	धानासुता			सोयाबीन			